



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203]
No. 203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 1978/आश्विन 28, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 1978/ASVINA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1978

सं० प्रतिश्रदायगी/सा०सू० 45/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ० के नियम 1 के अर्धीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिश्रदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्न-लिखित संशोधन करती है :—

उप क्रमांक 3202 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिश्रदायगी की दर
1	2	3
3202 (1)	एस्बेस्टास सीमेंट के प्रेशर पाइप तथा कपलिंग	368 रु० (केवल तीन सौ अड़सठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
(2)	एस्बेस्टास सीमेंट की स्पार्ट चद्दरें, छत के लिए चद्दरें तथा उपांग।	217 रु० (केवल दो सौ सत्तरह रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

1	2	3
(3)	एस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद जो अन्यत्र प्रविनिर्दिष्ट हैं।	153.25 रु० (केवल एक सौ तिरपन रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।

यह सार्वजनिक सूचना, जून 1978 के प्रथम दिन से लागू हुई मानी जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, 20th October, 1978.

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-45/78—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/E. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

For sub-serial No. 3202 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
3202 (1)	Asbestos Cement pressure pipes and couplings.	Rs. 368 (Rupees Three hundred & sixty eight only) per metric tonne.

1	2	3
(2) Asbestos Cement plain sheets, roofing sheets and accessories.		Rs. 217 (Rs. Two hundred and seventeen only) per metric tonne.
(3) Asbestos Cement products N.O.S.		Rs. 153.25 (Rs. one hundred fifty-three and paise twenty five only) per metric tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1978.

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिप्रवायगी/सा०सू० 46/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिप्रवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं० 602/2/70-प्र०प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रवायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रमांक 2103 और 2108 के सामने उल्लिखित प्रतिप्रवायगी की दरें 30 नवम्बर, 1978 तक वैध रहेंगी।

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN 46/78.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70 -DBK published in the Gazette of India-Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

The rates of drawback mentioned against sub-serial Nos. 2103 to 2108 shall be valid upto 30th day of November, 1978.

सं० प्रतिप्रवायगी/सा०सू० 47/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं० 602/2/70-प्र०प्र०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा-संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रवायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15

अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 5604 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपक्रमांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रवायगी की दर
5605	हॉकीयां, जिन की लम्बाई 865 मिमी. से कम नहीं हो और 965 मिमी. से अधिक नहीं हो और जिनके पटल (ब्लेड) की चौड़ाई 49 मिमी. से कम नहीं हो।	0.25 रु० (केवल पच्चीस पैसे) प्रति नग।

उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित सभी ऋंछे दरे, इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर वापस ले ली गई समझी जाएगी।

महेश कुमार, अवसर सचिव

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN 47/78.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India-Extra-ordinary-dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Tables published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

After sub-serial No. 5604 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5605	Hockey sticks having length of not less than 865 mm and not more than 965 mm with blade width of not less than 49 mm.	Rs. 0.25 (Paise twenty-five only) per piece

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

MAHESH KUMAR Under Secy.